



स मा चा र

मूक-बधिर खुद को अकेला न समझें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ : गिरीश गौतम
मूक-बधिर बच्चों के 5 वें राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा के अगले सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मिलवाने का किया वादा

भोपाल, 3 जून। पीपुल्स यूनिवर्सिटी सभागार में 3 से 5 जून तक आयोजित मूक बधिर 5 वें राष्ट्रीय उत्सव का शुभारंभ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने किया। डीफ केन फाउंडेशन की स्थापना की दसवीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि आप भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर राजनेता उस वर्ग को देखते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है और जहां से उसे लाभ होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं सदैव यह सोचता हूँ कि प्रकृति के द्वारा जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ जरूर खड़े रहना चाहिए।

श्री गौतम ने कहा कि कई बार आपको निराशा होती होगी कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि मूक बधिर संस्था के प्रतिनिधियों को वे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से जरूर मिलवाएंगे। श्री गौतम ने कहा कि सरकार के स्तर पर मूक बधिरों की क्या मदद हो सकती है इस पर वे कार्य करेंगे और हरसंभव मदद दिलाएंगे।

श्री गौतम ने मूक बधिरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही संस्था डीफ केन फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव